



सीमापार ऋणशोधन पर दूसरी रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

कंपनी मामले के मंत्रालय द्वारा भारतीय दवाला एवं दवालियापन संहिता, 2016 में संशोधन की संसुतुतिके लिये गठित ऋणशोधन कानून समिति (Insolvency Law Committee- ILC) ने अपनी दूसरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

समिति की सफारिशें

- ILC ने सीमापार ऋणशोधन के लिये 1957 के The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) प्रारूप कानून को लागू करने की संसुतुतिकी है, क्योंकि इसमें सीमापार ऋणशोधन संबंधी मुद्दे से नपिटने के लिये व्यापक प्रावधान शामिल हैं।
- समिति ने घरेलू ऋणशोधन क्षमता संबंधी प्रावधानों और प्रस्तावित सीमापार ऋणशोधन से जुड़े प्रावधानों के बीच कसिी प्रकार की असंगति को दूर करने के लिये भी कुछ प्रावधानों की संसुतुतिकी है।

UNCITRAL

- UNCITRAL प्रारूप कानून को लगभग 44 देशों में लागू किया गया है। इसलिये इसमें सीमापार ऋणशोधन से जुड़े मुद्दों से नपिटने के लिये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ परंपराओं को शामिल किया गया है।
- घरेलू प्रक्रियाएँ और लोगों के हतियों की रक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल होने की वजह से यह लाभकारी है।
- वदिशी नविशकों के बीच अधिक विश्वास पैदा करना, घरेलू ऋणशोधन कानून के साथ मज़बूती से जुड़ना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिये एक मज़बूत तंत्र कायम करना इसकी अन्य विशेषताओं में शामिल हैं।
- इस प्रारूप कानून में सीमापार ऋणशोधन के चार प्रमुख सदिधांत शामिल हैं, जैसे-
 1. कसिी उल्लंघनकर्त्ता कर्ज़दार के वरिद्ध घरेलू ऋणशोधन प्रक्रिया में भाग लेने अथवा उसे शुरू करने के लिये वदिशी ऋणशोधन व्यवसायियों और वदिशी ऋणदाताओं तक सीधी पहुँच।
 2. वदिशी प्रक्रियाओं को मान्यता और सुधार के प्रावधान।
 3. घरेलू और वदिशी न्यायालयों तथा ऋणशोधन कारोबारियों के बीच सहयोग कायम करना।
 4. वभिन्न देशों में दो अथवा अधिक ऋणशोधन प्रक्रियाओं के बीच समन्वय कायम करना।

भारत के लिये सीमापार ऋणशोधन फ्रेमवर्क की आवश्यकता

- दवाला और दवालियापन संहिता के तहत सीमापार ऋणशोधन फ्रेमवर्क की आवश्यकता इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि कई भारतीय कंपनियों के पास वैश्विक पहचान है और कई वदिशी कंपनियों की भारत सहित कई देशों में मौजूदगी है।

नषिकर्ष

- भारत की दवाला और दवालियापन संहिता, 2016 में सीमापार ऋणशोधन संबंधी खंड का समावेश एक बड़ा कदम होगा और इस प्रकार भारत का दवालियापन कानून और अधिक परपिक्व होगा।